



## प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

**\* (पत्रांक-127/2021 दिनांक 07.05.2021)\***

**\*दिनांक- 07.05.2021 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य\***

**दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर पडरौना पुलिस द्वारा 10000 रुपये का किया गया चालान-**

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री सचिन्द्र पटेल के निर्देशन में आज दिनांक 07.05.2021 को थाना कोतवाली पडरौना पुलिस टीम द्वारा धर्मशाला रोड पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति दिनेश सिंह पुत्र तेजबहादुर सिंह साकिन मटिहनियां खुर्द थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर को कोविड - 19 के नियमों व शर्तों का उलंघन करते हुये धर्मशाला रोड स्थित अपने दुकान के सामने बिना मास्क का घुमते हुये पकड़ा गया। उक्त व्यक्ति द्वारा पूर्व में भी बिना मास्क के घुमने पर 1000/-रुपये का चालान किया गया था। आज दिनांक 07.05.2021 को पुनः कोविड -19 के नियमों व शर्तों का उलंघन करते हुये बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का चालान किया गया।

**चालान किये गये व्यक्ति का नाम-**

1. दिनेश सिंह पुत्र तेजबहादुर सिंह साकिन मटिहनियां खुर्द थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

**चालान करने वाली पुलिस टीम-**

1. SHO श्री अनुज कुमार सिंह थाना कोतवाली पडरौना  
2. हे0का0 हिमांशु कुमार सिंह थाना कोतवाली पडरौना

**\*अवैध शराब बिक्री, परिवहन व निष्कर्षण के विरुद्ध चलाया गया अभियान-(कुल -01)\***

**\*अहिरौली बाजार-\***

थाना अहिरौली बाजार पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0-80/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है

**\*जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-\***

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 29 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

**\*कार्यवाही एक नजर में =\***

1. मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान- 317 वाहन।  
2. 107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-32, अभि0-78  
3. आबकारी अधिनियम में कार्यवाही-मु0-01, गिरफ्तारी-01, बरामदगी- 10 ली0 अवैध कच्ची शराब  
\*4. जनपद में कुल गिरफ्तारी –(कुल-30)\*

**\*मीडिया सेल\***  
**\*जनपद कुशीनगर\***